तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
6/6/23	वादी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली दफ्तर से तलब की गई। वादी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया। कि हम पक्षकारानों के मध्य लोकअदालत की भावना से समझौता हो गया है इसलिए अपने वाद-पत्र पर कोई भी कार्यवाही आगे नहीं चलाना चाहता उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर वाद पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर खारिज की जावे। हमने वादी एवं वादी के अधिवक्ता को सुना वादी ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना वाद पत्र खारिज कराने का निवेदन किया है। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री R.S. चौहान एडवोकेट द्वारा की गई। वादी का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कोसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
सि सुरेश Identified [signature] 6/6/23	[signature]	